



January 22, 2024

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400001

The National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra Kurla  
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

**Ref.: Indus Towers Limited (534816 / INDUSTOWER)**

**Sub.: Newspaper publication of Notice for transferring Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Notice published today i.e. January 22, 2024, for the attention of Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of IEPFA in accordance with the requirements of Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, in the following newspapers:

1. Mint in English; and
2. Hindustan in Hindi.

This is for your kind information and records.

Thank you,

Yours faithfully,

For **Indus Towers Limited**

Samridhi Rodhe  
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

**Indus Towers Limited**



# Margin system rollout in right direction: HUL

CEO defends revised margin structure amid distributor resistance

Suneera Tandon  
suneera.t@htlive.com  
NEW DELHI

Consumer goods company Hindustan Unilever Ltd (HUL) that is facing resistance from distributors over the roll-out of a revised margin structure said there are "no adverse effects" of the move, which is designed to incentivize and offer them higher earning potential.

Earlier this month, distributors asked the fast-moving consumer goods company to review the new margin structure, and threatened to halt the distribution of some of its key brands.

Allaying concerns, Rohit Jawa, CEO and managing director, HUL, said the company has a long-standing and a mutually beneficial relationship with its distributors. The company has been investing behind its distribution capabilities.

"Insofar as this specific case is concerned—number one, we have a progressive margin model, and it's a process of evolution of the margin structures and commercial arrangements with our distributors to improve and make our distributors future fit. This margin structure is designed to incentivize and offer higher earning potential, to get to smaller stores, to sell more new future-ready lines or market development



Rohit Jawa, CEO and managing director, Hindustan Unilever Limited.

packs and to offer delivery the next day. All of that makes our distributors competitive to various options available for retailers to buy. So, it's good for the distributor. Having done this test over one year, the response has been very favourable. Our distributors have earned more, so there's not just a high earning potential, but higher earning realized. And that's the reason why we have now scaled it to the top 100 cities over the last three months," Jawa told reporters after the company's earnings announcement on Friday.

In October, HUL rolled out a revised

margin structure in over 100 cities—this included a 60-100 bps reduction in fixed margins for distributors from 3.9% to 3.3%, and increasing the variable margin by 1-1.3 percentage points. However, distributor associations have been seeking a revision in the basic margin to a minimum of 5%. Though it is still at an early stage, the roll-out of the new structure is "going in the right direction", Jawa added. "As of now, there's no adverse effect. On the contrary, I would expect this model to actually incentivize higher growth. Effectively, it will be a win-win for our customers who get better service, for our distributors who earn more...and the company, of course, that grows more," he added.

3.3%  
revised fixed  
margin for  
distributors

**PGVCL** PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY LIMITED  
Corporate Office, Nana mava Main Road,  
Laxminagar, Rajkot-360004  
www.pgvcv.com http://guj\_epd.gov.in  
Customer Care Center Toll Free No. 1800 233 155333 & 19122

PGVCL is intending to publish CPP tender on behalf of group DISCOMs for purchase of Three Phase 11/0.433-0.250kV, Star-1 (Level-1), 800kVA, 1000kVA & 1250kVA capacity distribution transformer with CRGO Core. PGVCL will purchase above item from the registered vendor of our group of DISCOMs (i.e. MGVCV/PGVCV/UGVCV/DGVCV). The procedure for application of vendor registration in PGVCL & technical specifications of above items are available on our website www.pgvcv.com. Interested suppliers are requested to apply for vendor registration for the said item.

"Install ELCB and Protect life from electric shock"  
Chief Engineer (Material)

**NOTICE INVITING E-TENDER**  
The Deputy General Manager (Material Management), TSECL, Agartala invites the tender on behalf of TSECL for procurement of following items :  
i. PVC cable of Higher size ; ii. 3 phase Energy Meter iii. Cut out and iv. Spare parts of G.O. A.B. Switch.  
Details of tender will be available in website <https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app>

Deputy General Manager (MM)  
M. M. Division, TSECL  
Bidyt Bhawan, Agartala


**INDUS TOWERS LIMITED**  
CIN: L64201HR2006PLC073821  
Regd. Office: Building No. 10, Tower A, 4<sup>th</sup> Floor, DLF Cyber City,  
Gurugram-122002, Haryana  
Tel: +91-124-4296766, Fax: +91-124-4289333  
Email id: [compliance.officer@industowers.com](mailto:compliance.officer@industowers.com) Website: [www.industowers.com](http://www.industowers.com)

**NOTICE**  
**Transfer of Equity Shares of Indus Towers Limited to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")**  
This Notice is published pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"). The Act and the Rules provide for the mandatory transfer of Equity Shares, in respect of which dividend remains unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more, to IEPF.  
Adhering to the aforesaid requirements, the Company has communicated individually to such Shareholders whose dividends remain unpaid/ unclaimed for seven consecutive years commencing from the Financial Year 2016-2017 (Interim Dividend 2016-17) requesting them to claim the same by April 21, 2024, by following the procedure laid down in the correspondence sent to them on January 19, 2024.  
In the interest of the Shareholders, e-mail communication has also been sent to those Shareholders whose e-mail ids are registered with the Company. The Shareholders who do not have their email ids registered may note that the requisite details of such shares which are liable to be transferred to IEPF along with the procedure for claiming the same, is uploaded on the website of the Company as stated hereunder. In the absence of receipt of a valid claim by the Shareholders within the mentioned timeframe, the Company will transfer the said shares to IEPF.  
Further, the Shareholders holding Equity Shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may please note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the original Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in the DEMAT accounts opened by the IEPF Authority with NSDL and CDSL. Upon such issue, the original Share Certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of such shareholders, holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to DEMAT account of the IEPF Authority as indicated hereinabove shall be affected by the Company through the respective depository by way of corporate action.  
The Shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of such Equity Shares which are liable to be transferred to IEPF on its website at [www.industowers.com](http://www.industowers.com). The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website are treated as notice in respect of issue of the duplicate Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.  
Further dividend/ benefit, if any, in respect of Equity Shares so transferred shall also be credited to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and the shares transferred to IEPF. On transfer of the dividend and shares to IEPF, the Shareholders may claim the same by making an application to IEPF Authority in Form IEPF-5, as per the Rules. The said form is available on the Company's website and on the website of IEPF at [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in).  
In view of the above, the concerned Shareholders are once again requested to claim their unclaimed dividends before April 21, 2024 by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque, self-attested copy of address proof and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filed indemnity bond (available on the website of RTA and the Company) falling which the Company shall, in adherence to the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares on which dividend remains unpaid/ unclaimed for seven consecutive years to the IEPF Authority in accordance with applicable provisions without any further notice.  
In case the Shareholders have any queries, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, at their address Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032. Ph. No.: +91 40 67161736 Toll Free No.: 1800-3094-001. Email id: [einward\\_ris@kfinftech.com](mailto:einward_ris@kfinftech.com). Website: [www.kfinftech.com](http://www.kfinftech.com).

For Indus Towers Limited  
Sd/-  
Place: Gurugram Samridhi Rodhe  
Date: January 19, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

Immerse in  
**Mint**  
Long Story

The art of storytelling



Read only on  
**mint**

Aditya Birla Housing  
Finance Ltd.



HOME LOANS



We at ABHFL are on our way to build a better tomorrow for you and yours!

We're growing with you:

AUM  
₹16,538 Cr

DISBURSEMENT  
₹2,016 Cr

27%↑

45%↑

PBT  
₹100 Cr

GNPA  
2.18%

28%↑

148bps↓

% growth from Dec'22 to Dec'23

CUSTOMERS  
60,000+

BRANCHES  
130

EMPLOYEES  
3000+

DISTRIBUTORS  
11,000+

OUR FINANCING SOLUTIONS,  
CRAFTED JUST FOR YOU:

PRAGATI HOME LOAN

MICRO LOAN AGAINST PROPERTY

MICRO CONSTRUCTION FINANCE



SCAN THIS QR CODE OR CALL 1800 270 7000 TO APPLY

## ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Regd office: Indian Rayon Compound Veraval Gujarat, 362266 | CIN: U65922GJ2009PLC083779  
Website: <https://homefinance.adityabirlacapital.com/>

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 (₹ in lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2023	Quarter ended Dec 31, 2022	Year ended Mar 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	47,103.52	37,220.38	1,40,524.82
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	10,016.22	7,841.00	30,852.52
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	10,016.22	7,841.00	30,852.52
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	7,818.32	6,058.84	24,093.07
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	7,816.64	6,206.67	24,635.33
6	Paid up equity share capital	50,119.77	50,119.77	50,119.77
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	-	-	1,46,680.10
8	Net worth	-	-	1,96,799.87
9	Paid up debt capital / outstanding debt	-	-	11,93,723.63
10	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-
11	Debt equity ratio	6.55	5.93	6.07
12	Earnings per share (of Rs. 10/- each)(not annualised) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	1.56	1.21	4.81
	2. Diluted:	1.56	1.21	4.81
13	Capital redemption reserve	-	-	-
14	Debt redemption reserve	-	-	-
15	Debt service coverage ratio	NA	NA	NA
16	Interest service coverage ratio	NA	NA	NA

- The above is an extract of the Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2023 are available on the National Stock Exchange of India Ltd. website (URL: <https://nseindia.com/>) and BSE Limited website (URL: <https://www.bseindia.com/>) and on the website of the Company (URL: <https://homefinance.adityabirlacapital.com/>).
- For the other line items referred to in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges and are available on the National Stock Exchange of India Ltd. website (URL: <https://nseindia.com/>) and BSE Limited website (URL: <https://www.bseindia.com/>) and on the website of the Company (URL: <https://homefinance.adityabirlacapital.com/>).
- These financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 19, 2024. The statutory auditor of the Company have carried out the limited review of the aforesaid results.
- Operating business segment results are reviewed regularly by the Company's Chief Operating Decision Maker (Board of Directors) to make decisions about resources to be allocated to the segments and assess their performance. Business segment is the primary segment comprising of 'Housing finance'. As the Company operates only in a single business segment, no segment information thereof is given as required under Ind AS 108.

For and on behalf of the Board of Directors of Aditya Birla Housing Finance Limited

Place: Mumbai  
Date: January 19, 2024

Pankaj Gadgil  
Managing Director & CEO  
DIN: 08521239

# शेयर, सर्वाफा और प्रॉपर्टी समेत तमाम कारोबारों की बिक्री में जोरदार उछाल, हर तरफ नई उम्मीद जगी

## कारोबार जगत भी जश्न में हुआ शामिल

### चांदी के राम दरबार और सोने-चांदी के सिक्कों की मांग बढ़ी



अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में भी उत्साह है। आभूषण विक्रेताओं के मुताबिक सोने-चांदी के राम दरबार, राम नाम के पेंडेंट और तमाम तरह की ज्वेलरी खरीदी जा रही है। राम मंदिर, राम दरबार और राम-सीता की मूर्तियां चांदी से बनाई जा रही हैं। व्यापारियों के अनुसार इन दिनों बाजार में श्री राम के दरबार समेत श्री राम लला की चांदी की मूर्तियां, चांदी के सिक्के और सोने के पेंडेंट की भी मांग मिल रही है जिससे बाजार में सोने की दुकानों में जमकर खरीदारी हो रही है। चांदी के श्री राम सीता के सिक्कों की भी खूब मांग निकल रही है। 10 ग्राम चांदी के सिक्कों की कीमत 850 रुपये है। वहीं, चांदी से बने राम मंदिर की मांग काफी ज्यादा है।

### अडानी विल्वर प्रसाद से पैट बनाने में जुटी

अडानी विल्वर अपने फॉरवर्ड ब्रांड के साथ प्रसाद बनाने के काम में जुटी है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंशु मलिक ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। फॉरवर्ड की ब्रांड भावना को ध्यान में रखते हुए हमें इस उत्सव का हिस्सा बनने पर गर्व है, क्योंकि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम एक त्योहार है जो भारतीय होने की अनुभूति का जश्न है।

### हैवेल्स ने मंदिर की प्रकाश व्यवस्था संभाली

हैवेल्स इंडिया के अध्यक्ष, पराग भटनगर ने कहा, हमने मंदिर की प्रकाश व्यवस्था के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। कंपनी ने अत्याधुनिक लाइटिंग एलिमेंट की सलाह, इंस्टालेशन, टैस्टिंग का कार्य किया है। यह गर्व का विषय है कि हैवेल्स ने असाधारण लाइटिंग सॉल्यूशन के माध्यम से श्री राम मंदिर की भव्यता को और भी ज्यादा समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### पीवीआर आईनॉक्स दिखा रहा सीधा प्रसारण

अग्रणी मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर पीवीआर आईनॉक्स ने 70 से अधिक शहरों में अपने 160 सिनेमा स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाने की घोषणा की है। पीवीआर आईनॉक्स के को-सीईओ गोतम दत्ता ने कहा उम्मीद है कि हम मंदिर की गूंज, मंत्र और मन को छूने वाले दृश्यों को दिखाकर भारत के समकालीन इतिहास में सबसे प्रतीक क्षणों को जीवंत कर पाएंगे।

### डाबर मुनाफे में एक हिस्सा दान कर रही

कुछ कंपनियों समूह के दौरान क्षेत्र में बिक्री से अपने लाभ का एक हिस्सा पूरे अयोध्या शहर में विशेष खाद्य पदार्थ वितरित करने के लिए दान कर रही है। डाबर इंडिया अपने उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान करेगी। डाबर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निस्संदेह हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है।

### आईटीसी छह माह तक धूप दान करेगी

आईटीसी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ जुड़ी है और इसके अग्रवर्ती ब्रांड मंगलदीप ने मंदिर के उद्घाटन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए धूप दान किए हैं। आईटीसी के अग्रवर्ती कारोबार के मुख्य कार्यकारी गौरव तायल ने कहा, मंगलदीप का इस ऐतिहासिक तथा पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बनना वास्तव में सम्मान की बात है। कंपनी अगले छह माह तक धूप दान करने के लिए तैयार है।

## तिमाही नतीजों से तय होगी दिशा

नई दिल्ली, एंजेंसी। शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजों, वैश्विक रुझान और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की गतिविधियों से तय होगी। आगामी बजट को लेकर उम्मीदें और क्षेत्र विशेष गतिविधियों बाजार को दिशा देंगी।

यह सप्ताह कम कारोबार सत्रों का रहेगा। 22 जनवरी को बाजार में अवकाश रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण शुक्रवार की घोषणा की है। इसके अलावा शुक्रेवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा।

### विदेशी निवेशकों ने की जोरदार बिकवाली

नई दिल्ली, एंजेंसी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने के पहले तीन सप्ताह में अबतक काफी सतक रकम अर्जित कर चुके हैं। भारतीय शेयर बाजारों से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की है। भारतीय शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन और अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ने की वजह से एफपीआई बिकवाल बने हुए हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, इस रकम के उलट विदेशी निवेशक ऋण या बॉन्ड बाजार को लेकर उत्साहित हैं।

## बाजार 30 S

### राज्यों की कर्ज गारंटी तीन गुना हुई

मुंबई। देश के 17 प्रमुख राज्यों द्वारा अपनी इकाइयों को दी गई कुल ऋण गारंटी वित्त वर्ष 2022-23 तक तीन गुना से अधिक होकर 9.4 लाख करोड़ रुपये हो गई है। यह वित्त वर्ष 2016-17 में तीन लाख करोड़ रुपये था। इका रेटिंग्स ने कहा कि राज्यों द्वारा दी गई कुल ऋण गारंटी 2016-17 में तीन लाख करोड़ रुपये से तीन गुना होकर 9.4 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

### टाटा एक फरवरी से वाहनों के दाम बढ़ाएगी

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अगले महीने से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सहित अपने सभी यात्री वाहनों की कीमतों में औसतन 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह मूल्यवृद्धि एक फरवरी, 2024 से प्रभावी होगी। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आर्थिक भरपाई के लिए कंपनी यह कदम उठा रही है।

### नवीन ऊर्जा गीगा परिसर इसी साल शुरू होगा

नई दिल्ली। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस साल की दूसरी छमाही में नवीन ऊर्जा गीगा परिसर शुरू करेगी। कंपनी ने तिमाही नतीजों की घोषणा के दौरान निवेशक कॉल में यह जानकारी दी। रिलायंस गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ क्षेत्र में गीगा परिसर बना रही है। इसमें फोटोवोल्टिक पैनल, इंधन सेल प्रणाली, हरित हाइड्रोजन के लिए कारखाने शामिल हैं।

### अप्रैल-दिसंबर में बिजली की मांग बढ़ी

नई दिल्ली। देश में बिजली की खपत चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर 1,221.15 अरब यूनिट हो गई है। यह आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। देश में बिजली की मांग 1,132.11 अरब यूनिट रही थी। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में बिजली की खपत में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत है।

### केंट आरओसिस्टम्स अमेरिकी बाजार में उतरेगी

नई दिल्ली। वॉटर प्यूरीफायर बनाने वाली घरेलू कंपनी केंट आरओ सिस्टम्स का इरादा अगले वित्त वर्ष में अमेरिकी बाजार में उतरने का है। कंपनी ने अगले तीन साल में 2,000 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वह अपने उपकरण पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक महेश गुप्ता ने यह जानकारी दी।

### स्टेयर्स का पांच स्टार्टअप में निवेश का ऐलान

नई दिल्ली। गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप स्टार्टअप स्टेयर्स ने गुरुग्राम में अपने इनोवेटिव सेंटर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर स्टार्टअप स्टेयर्स की प्रमोटर प्रीत संघु ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्क्रीम के तहत पांच इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनियों में 55 लाख रुपये के निवेश का ऐलान किया।

### एमआरएआई का 11वां एक्सपो 23 से 25 तक

नई दिल्ली। मद्रास रीसाइलिंग एक्सपोज़िशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) भारत के कोलकाता के बिस्वा बांग्ला मेला प्रोग्राम में रीसाइलिंग इंडस्ट्री 23, 24 और 25 जनवरी 2024 को 11वीं आईएमआरसी सम्मेलन और एक्सपो आयोजित कर रहा है। संजय मेहता, अध्यक्ष, एमआरएआई ने बताया इसमें 35 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

### बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति संतोषजनक

नई दिल्ली। जेआईसीए इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि साइतो मित्सुनोरी ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि पीएम गति शक्ति योजना से देश में सार्वजनिक कार्यों में तेजी आई है। भारत के सीमा सड़क संपर्क को बढ़ाने और भूटान, नेपाल तथा बांग्लादेश के साथ बिजली परियोजना में हिस्सा लेने में भी जापान ने रुचि व्यक्त की।

### पाम और पामोलीन तेल की कीमतों में तेजी आई

नई दिल्ली। बीते सप्ताह दाम में आये सुधार के कारण देश के तेल-तिलहन बाजारों में कच्चे पामोले (सीपीओ) और पामोलीन तेल की कीमतों में तेजी आई। वहीं अन्य तेल-तिलहन (सरसों, मूंगफली एवं सोयाबीन तेल-तिलहन, बिनीला तेल) के दाम गिरावट दर्शाते हुए हैं।

## वस्तु एवं सेवा निर्यात में मामूली वृद्धि

नई दिल्ली, एंजेंसी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद बीते साल (2023 में) देश का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात मामूली 0.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 765.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। चाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

भारत के निर्यात को इलेक्ट्रॉनिक, धातु, सूती धागा, कपड़े और मेड-अप; सिरेमिक उत्पाद, मांस, डेयरी और पॉल्ट्री उत्पाद, फल और सब्जियां और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र से मजबूत मिली है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले कैलेंडर साल में वस्तुओं का निर्यात 4.71 प्रतिशत घटकर 431.9 अरब डॉलर पर आ गया। वहीं सेवाओं का निर्यात 7.88 प्रतिशत बढ़कर

### लाल सागर संकट के चलते व्यापार पर असर पड़ा

रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास संघर्ष और मालावाहक जहाजों पर यमन स्थित हथी विद्रोहियों के हमलों के कारण लाल सागर व्यापार मार्ग संकट के चलते माल लदान प्रभावित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ये चुनौतियां लंबे समय तक बनी रहें, तो इसका वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि भारत का निर्यात और आयात 2022 के 1,651.9 अरब डॉलर की तुलना में 2023 में 2.6 प्रतिशत घटकर 1,609 अरब डॉलर रह गया है।

333.8 अरब डॉलर पर पहुंचने अनुमान है। वस्तुओं का आयात भी पिछले साल सात प्रतिशत घटकर 667.73 अरब डॉलर रहा। 2022 में यह 720.2 अरब डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के नवंबर 2023 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। दिसंबर 2023 का आंकड़ा मंत्रालय का एक अनुमान है।

## सोने, तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर शुल्क घटे

मुंबई, एंजेंसी। आम बजट से पहले रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने सरकार से सोने और कटे व पॉलिश हीरे (सीपीडी) पर आयात शुल्क कम करने का आग्रह किया है। कटे हुए हीरे के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सके।

भारत का रत्न और आभूषण उद्योग सोने, हीरे, चांदी और रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। जीजेईपीसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग कर रही है।

## बजट में टैक्स के मोर्चे पर मिल सकती है कुछ राहत

### अनुमान

नई दिल्ली, एंजेंसी। वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा में एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। यह उनका छठा बजट है। बजट में खासकर नौकरपेशा लोगों की जरूरत मुख्य रूप से आयकर के मोर्चे पर होने वाली घोषणाओं और राहत पर होती है।

अर्थशास्त्रियों की राय इसपर अलग-अलग है। कुछ का कहना है कि सरकार आम चमचूने से पहले अगले महीने पेश होने वाले अंतरिम बजट में मानक कटौती की राशि बढ़ाकर आयकरदाताओं को राहत देने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट दे सकती है। हालांकि, कुछ यह भी मानते हैं कि यह अंतरिम बजट है, ऐसे में आयकर मामले में बदलाव की उम्मीद नहीं है।

सेक्टर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल ने कहा, अंतरिम बजट में नौकरपेशा और मध्यम वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। मानक कटौती की राशि बढ़ाकर कुछ राहत दिए जाने की उम्मीद है। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग आयकर नहीं देता है। करदाताओं को राहत से जुड़े सवाल के जवाब में लखनऊ स्थित गिरि



### महिलाओं के लिए कर में और छूट की संभावना

आर्थिक शोध संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा, महिला मतदाताओं पर जोर को देखते हुए आयकर कानून की धारा 88सी के तहत महिलाओं के लिए कुछ अलग से कर छूट मिल सकती है। आयकरदाता भारतीय आबादी का एक छोटा हिस्सा हैं, ऐसे में महिलाओं और पुरुषों के लिए कर राहत से जुड़ी घोषणाओं का कम ही प्रभाव पड़ता है।

## इरेडा ने तिमाही में 67% लाभ कमाया

केवडिया (गुजरात)। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एंजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए) ने अपने लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 67% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की और लाभ पर पहुंच गई। तिमाही में कंपनी का कर परचात लाभ 335.54 करोड़ का टैक्स रहा। कंपनी ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय लगातार वृद्धि की दिया।

## कॉर्पोरेट कॉर्नर



माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीए) के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सीआरसीए का अत्याधुनिक कार्यालय लगभग 41,000 वर्ग फुट सुपर निर्मित क्षेत्र वाला होगा।

## उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को सम्मानित किया

नई दिल्ली। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्कोप पुरस्कार प्रदान किए। संदीप कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, स्कोप के महानिदेशक श्री अतुल सबौती और स्कोप के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार उपध्याय भी मंच पर



पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और एफएसआर ग्लोबल काउंसिल (एफएसआर ग्लोबल) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में एमओयू पर पावर फाउंडेशन के महानिदेशक श्री संजीव नंदन सहाय की उपस्थिति हस्ताक्षर हुए।

## दिल्ली केंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने एनसीसी के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किए गए प्रभावशाली 'गार्ड ऑफ ऑनर' की समीक्षा की।



उपस्थित थे। समारोह में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भौतिक और वस्तुतः दोनों तरह से भाग लिया। स्कोप कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवोन्मेषी, विकास प्रेरित और उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाते हैं।



बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार और डिजिटलीकरण की श्रेणियों में तीन प्रतिष्ठित 'स्कोप पुरस्कार' जीते। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह पुरस्कार प्रदान किए।

## कारोबारी चर्चा

### एक नई विशेष जमा योजना 'यूसीओ 300' की शुरुआत...

यूको बैंक ने 11 जनवरी 2024 से 300 दिनों की जमा अवधि के लिए एक विशेष साविधि जमा योजना 'यूसीओ 300' शुरू की है और यह योजना 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगी। यह योजना 2 करोड़ रुपये से कम की घरेलू खुदरा साविधि जमा पर लागू है। यह योजना बैंक की सामान्य कार्ड दर की तुलना में अधिक ब्याज दर की पेशकश कर रही है और इससे ग्राहकों को अपने निवेश पर उच्च दर का रिटर्न अर्जित करने का लाभ मिलेगा। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन दर प्रदान करती है। नई विशेष जमा योजना खोलने और जमा योजना पर ऋण/ओडी की सुविधा भी डिजिटल चैनलों के माध्यम से उपलब्ध है।

### मनोवेन्द्र घोषाल ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया

मनोवेन्द्र घोषाल ने एमएसटीसी लि. (एक मिनीरत्न संवर्ग 1 कंपनी), इस्पात मंत्रालय के अधीन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कोलकाता स्थित मुख्यालय में 1 जनवरी 2024 से पदभार ग्रहण किया। वह इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेकेनिकल इंजीनियर्स (एससीआर बैच 1985) से हैं। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के एक फेलो भी हैं। भारतीय रेलवे के 23 वर्ष और राइट्स लिमिटेड में 10 वर्ष के अपने पूरे करियर में उन्होंने कई नेतृत्वकारी पदों व पिछले दो वर्षों से मुख्य रणनीतिक अधिकारी, राइट्स के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।



मनोवेन्द्र घोषाल ने एमएसटीसी लि. (एक मिनीरत्न संवर्ग 1 कंपनी), इस्पात मंत्रालय के अधीन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कोलकाता स्थित मुख्यालय में 1 जनवरी 2024 से पदभार ग्रहण किया। वह इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेकेनिकल इंजीनियर्स (एससीआर बैच 1985) से हैं। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के एक फेलो भी हैं। भारतीय रेलवे के 23 वर्ष और राइट्स लिमिटेड में 10 वर्ष के अपने पूरे करियर में उन्होंने कई नेतृत्वकारी पदों व पिछले दो वर्षों से मुख्य रणनीतिक अधिकारी, राइट्स के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

## नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ईआईएल, पीएफसी, आरईसी और पावरग्रिड को सम्मानित किया।



नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ईआईएल, पीएफसी, आरईसी और पावरग्रिड को सम्मानित किया।

### सवारी डिब्बा कारखाना

निविदा सूचना संख्या सडिका/मुयाइं/क्यूए/टीएस/2023-24 दि. 16/01/2024

निम्नलिखित ई-निविदा आईआईटीएस वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। फर्म से अनुरोध है कि वे [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर लॉग-इन करें और निविदा के लिए कोट करें। निविदा के लिए मैनुअल कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा संख्या	सूचना निविदा फ़ाइल संदर्भ संख्या	कार्य का नाम	मात्रा	निविदा बंद होने पर खुलने की तिथि और समय
2024471211287	सडिका/मुयाइं/क्यूए/टीएस/01/2023-24	सवारी डिब्बा कारखाना में सौराष्ट्र स्ट्रीक प्रमाणपत्र के लिए छेदा मेनेजमेंट सर्विस की आउटसोर्सिंग के लिए कार्य अनुबंध	4000 कोच	बंद होने की तिथि 07/02/2024 को समय 15.30 बजे, खुलने का समय 15.45 बजे

उपर्युक्त विज्ञापन का हिंदी संस्करण ICF Website <https://icf.indianrailways.gov.in/> में उपलब्ध है।

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर कार्यालय / क्यूए

### इंडस टावर्स लिमिटेड

सी.आई.एन.: L64201HR2006PLC073821  
 पंजी. कार्यालय: बिल्डिंग नं. 10, टॉवर ए, चतुर्थ तल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा  
 दूरभाष: +91-124-4296766, फैक्स: +91-124-4289333  
 ई-मेल: [compliance.officer@industowers.com](mailto:compliance.officer@industowers.com) वेबसाइट: [www.industowers.com](http://www.industowers.com)

### सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में इंडस टॉवर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के साथ पंजित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपर्क, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की गई है। अधिनियम व नियम के अनुसार उन इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ में हस्तांतरण अनिवार्य है, जिनमें लामांश लगातार सात साल या उससे अधिक की अवधि में भुगतान या चुकता नहीं किया गया है। उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से जनवरी 19, 2024 को नोटिस भेज चुकी है, जिनका लामांश वित्तीय वर्ष 2016-2017 (अंतिम लामांश 2016-2017) से शुरू होने वाले लगातार सात वर्षों तक बकाया है/दाना नहीं किया गया है। हम उनसे कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रैल, 21, 2024 तक उसका दावा करने का अनुरोध करते हैं।

शेयरधारकों के हित में कंपनी ने, जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें ई-मेल भेजा है व जिन शेयरधारकों के ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, कृपया ध्यान दें कि प्रक्रिया सहित आईईपीएफ में हस्तांतरित होने योग्य इस तरह के शेयरों का अपेक्षित विलय यहां वर्णित अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है। उक्त वर्णित समय सीमा के भीतर शेयरधारकों द्वारा भेजे जाने वाले निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में, कंपनी उक्त शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

इसके अलावा, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अमौखिक रूप में हस्तांतरण के लिए उनके द्वारा रखे गए मूल प्रमाण पत्र के बचले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और बाद में एनएसडीएल व सीडीएसएल के साथ प्राधिकृत आईईपीएफ द्वारा खोले गए डीमैट खातों में हस्तांतरित करेगी। ऐसे मामले में उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओ) स्वयं यह हो जाएंगे और गैर-परिवर्तनीय माने जाएंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले ऐसे शेयरधारक, ऊपर वर्णित अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में शेयरों का हस्तांतरण निगमित कार्यवाही द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम कंपनी द्वारा प्रभावित किए जाएंगे।

शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी ने आईईपीएफ में हस्तांतरित करने योग्य इक्विटी शेयरों की अपडेटेड सूची [www.industowers.com](http://www.industowers.com) वेबसाइट पर उपलब्ध की है। इसके अतिरिक्त शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए विवरण को नियमों के अनुपालन में आईईपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी द्वारा ड्यूटीकट शेयर प्रमाणपत्र (ओ) जारी करने के संबंध में सूचना के रूप में माना जाये।

हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में अन्य लामांश/लाम, यदि कोई हो, तो भी आईईपीएफ में क्रेडिट किया जाएगा। आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कोई दावा और लामांश कंपनी के विरुद्ध नहीं होगा। आईईपीएफ में लामांश और शेयरों के हस्तांतरण पर, शेयरधारक नियमों के अनुसार, फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक आवेदन करके दावा कर सकते हैं। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट और आईईपीएफ की वेबसाइट [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के महानजद, संबंधित शेयरधारकों से एक बार फिर से, इस सूचना की प्राप्ति पर अपने लामांश पर अप्रैल, 21, 2024 तक दावा करने का अनुरोध है। उन्हें पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, रद्द किए गए चेक की प्रति, पता प्रमाण की मूल प्रति और मूल गैर नकद लामांश वॉरंट (यदि कोई हो) या विधिवत रूप से दायर क्षतिपूर्ति बंध (आरपीए) और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के सहित लिखित आवेदन जमा करना होगा। असफल होने पर कंपनी अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में उन शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

किसी भी पृष्ठताछ के मामले में, शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलिनिगम बिल्डिंग, टॉवर बी एलॉट 31-32, गव्हीबागली, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-50032, फोन नं. +91 40 67161736 टॉल फ्री नं. 1800-3094-001 ई-मेल आईडी: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) वेबसाइट [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

ईडस टॉवर्स लिमिटेड कृते हस्ता. / - समुद्धि रो- दिनांक: जनवरी 19, 2024 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी